

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2016/पौष 22, 1937
No. 21]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2016/ PAUSA 22, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2016

आयकर

सा.का.नि. 21(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या 93/2015, दिनांक 16 दिसम्बर, 2015, जिसे सा.का.नि. 978(अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के पृष्ठ 5, पंक्ति 3 में “अनधिक” शब्द के स्थान पर शब्द “अधिक” पढ़ें

[अधिसूचना सं. 1/2016/फा. सं. 133/41/2015-टीपीएल]

आर. लक्ष्मी नारायणन, अवर सचिव (टीपीएल)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th January, 2016

INCOME-TAX

G.S.R. 21(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), number 93/2015, dated the 16th December, 2015, published vide number G.S.R. 978(E), dated the 16th December, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), at page 17, in line 49, for “does not exceed” read “exceeds”.

[Notification No. 1 /2016/F. No. 133/41/2015 –TPL]

R. LAKSHMI NARAYANAN, Under Secy. (TPL)